

कल्याणी का किरदार मेरे दिल के बेहद करीब

By : Editor Published On : 6 Sep, 2020 07:00 AM IST



मुंबई । अभिनेत्री रीम शेख ने साफ किया कि वह शो 'तुझसे है राबता में' कल्याणी की अपनी भूमिका नहीं छोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि "तुझसे है राबता" को छोड़ने के बारे में कई तरह की अटकलों के बाद मैं अपना रुख साफ करना चाहूंगी और अपने प्रशंसकों को आश्वस्त करना चाहूंगी कि मैं शो करना जारी रखना चाहती हूँ। कल्याणी का किरदार मेरे दिल के बेहद करीब है और शो में जल्द ही आपको मनोरंजक मोड़ देखने मिलेगा।" उन्होंने आगे कहा कि मैंने हाल ही में शो के निर्माताओं के साथ कुछ रचनात्मक पहलुओं के बारे में चर्चा की थी, हालांकि हम मतभेद को दूर करने और एक परिणामदायक सर्वसम्मति पर पहुंचने में सफल रहे हैं। जिस तरह से मेरा चरित्र वर्तमान में आकार ले रहा है, उससे मैं बहुत खुश हूँ और अपने प्रशंसकों की प्रतिक्रियाओं का इंतजार नहीं कर पा रही हूँ। बता दें कि शो ने पांच साल का लीप लिया है। इसके बारे में अभिनेता सेहबान अजीम ने लीप के बारे में बात करते हुए कहा कि "हम अपने दर्शकों और प्रशंसकों से बहुत प्यार करते हैं। कल्याणी और मल्हार सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले ऑन-स्क्रीन जोड़ों में से एक हैं, लेकिन आगामी लीप निश्चित रूप से दर्शकों को आश्चर्यचकित कर देगी और मुझे यकीन है कि वे मेरे दूसरे पक्ष को देखने का आनंद लेंगे।" बता दें कि सेहबान शो में मल्हार की भूमिका निभा रहे हैं। PLC.

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/कल्याणी-का-किरदार-मेरे-दि/>